

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 1968/पौष 9, 1890
No. 493] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 1968/PAUSA 9, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1968

S.O. 4654.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 16 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968) read with sub-section (1) of that section, and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 3892 dated the 29th October, 1968, I Jasjit Singh, Administrator, being satisfied that it is necessary so to do, hereby extend the period for the making of declarations by licensed dealers and refiners under the said sub-section (7) upto and inclusive of the 28th day of February, 1969.

[No. F. 1/8/68-GC.II.

IASJIT SINGH, Administrator

(1513)

